



...the name you can BANK upon!

CORRECTION

POSSESSION NOTICE

This is in reference to publication in this newspaper dated 20.01.2020 of Possession Notice at "Description of the Immovable Property-Property No. 2888/2" may be read as "Property No. 2888/1". All other terms & conditions are same.

DATE: 30.01.2020 **Authorised Officer**
PLACE: NEW DELHI Punjab National Bank

PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Regulation 31(2) read with Regulation 12(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016]

FOR THE ATTENTION OF STAKEHOLDERS OF SAHIL INTERNATIONAL PVT. LTD. - IN LIQUIDATION

Pursuant to Regulation 31(2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, Public Announcement is hereby made that the List of Stakeholders of Sahil International Pvt. Ltd. - in Liquidation ("Corporate Debtor") prepared by the Liquidator, has been filed with the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh, Bench on 30.01.2020. As there is no functional website of the Corporate Debtor, hence the List of Stakeholders can be viewed on the following link: <http://embeeip.com>

HARVINDER KUMAR JATANA
LIQUIDATOR

IN THE MATTER OF M/S SAHIL INTERNATIONAL PVT. LTD.
Regn. No.: IBB/IFA-002/IP-A004/18/2017-18/1193
#206 Shivakshi Enclave, NAC Manimajra, Chandigarh-160011
hki_jatana@yahoo.co.in
Correspondence Address: SCO 2935-36, First Floor, Sector-22C, Chandigarh - 160022
Ph. No. 9814583727, ip.sahilni@gmail.com

Date: 31.01.2020
Place: Chandigarh



ACCELYA SOLUTIONS INDIA LIMITED

Registered Office: Accelya Enclave, 685/2B & 2C, 1st Floor, Sharada Arcade, Satara Road, Pune - 411 037. Tel: +91-20-6608 3777 Fax: +91-20-24231639
Email: accelya@accelya.com Website: w3.accelya.com
CIN: L74140PN1986PLC041033

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2019 (Rs. in Lakhs)			
Particulars	Quarter Ended 31 December 2019	Six Months Ended 31 December 2019	Quarter Ended 31 December 2018
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1. Total Revenue from operations	11,360.17	23,538.23	10,775.47
2. Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	3,676.18	8,315.11	4,570.48
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	3,676.18	8,315.11	4,570.48
4. Net profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	2,702.17	5,957.93	3,026.29
5. Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,992.20	6,251.52	2,660.32
6. Equity share capital	1,492.69	1,492.69	1,492.69
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-
8. Earnings per share (EPS) (of Rs. 10/- each) (Rs.)			
1. Basic:	18.10	39.92	20.27
2. Diluted:	18.10	39.92	20.27

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financials Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financials Results is available on the Stock Exchange websites.
Company's Website: <https://w3.accelya.com/accelya-solutions-india-limited-quarterly-annual-reports>
BSE Website: www.bseindia.com
National Stock Exchange of India Limited: www.nseindia.com

Notes to the financial results

- The unaudited consolidated financial results for the quarter and six months ended 31 December 2019 were approved by the Board of Directors in its meeting held on 29 January 2020.
- Based on the "management approach" as defined in Ind AS 108-Operating Segments, the Chief Operating Decision Maker evaluates the Group's performance as a single business segment namely travel and transportation vertical.
- The Board of Directors declared an interim dividend of Rs. 10/- per equity share. The interim dividend will be paid to those shareholders whose names appear in the Register of Members as on 6 February 2020.
- Effective 1 July 2019, the Company has adopted Ind AS 116, Leases, using modified retrospective method. The Company has elected the practical expedients, which allows the Company not to reassess, its prior conclusions about lease identification, lease classification and initial direct costs. The comparative information is not restated in the financial results. In the statement of financial results for the current period, the nature of expenses in respect of operating leases has changed from lease rent in previous period to amortisation cost for the right-of-use assets and finance cost for interest accrued on lease liability. On transition, the adoption of the new standard resulted in recognition of Right-of-use asset of Rs. 5,151.4 lakhs and lease liability of Rs. 5,498.6 lakhs.
- Amount recognised towards export incentive under the Service Export of India Scheme in current quarter aggregates to Rs.162.55 lakhs.
- Figures for the previous period have been regrouped/ reclassified wherever necessary to make them comparable.
- The financial results of the Company on a standalone basis for the quarter and six months ended 31 December 2019 are summarised below.

Particulars	Quarter Ended 31 December 2019	Six Months Ended 31 December 2019	Quarter Ended 31 December 2018
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1. Total Revenue from operations	9,827.81	20,587.12	9,298.56
2. Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	3,488.50	8,767.60	4,175.20
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	3,488.50	8,767.60	4,175.20
4. Net profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	2,582.04	6,582.53	2,699.85
5. Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,568.73	6,555.91	2,682.93

For Accelya Solutions India Limited

Place : Mumbai
Date : 29 January, 2020

Neela Bhattacharjee
Managing Director
DIN: 01912483

SCHEDULE II

FORM B

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF M/s RAIN AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1. Name of the corporate debtor	RAIN AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED
2. Date of Incorporation of corporate debtor	09/02/2011
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	RCC-DELHI
4. Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U50200DL2011PTC213635
5. Address of The Registered office and Principal office (if Any) of Corporate Debtor	1167 / 7, NAI WALLA, KAROL BAGH, NEW DELHI- 110005
6. Date of Closure of Insolvency Resolution Process	11/12/2019
7. Liquidation Commencement Date of Corporate Debtor	15/01/2020 (Order received on 27/01/2020)
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as liquidator	MAYA GUPTA Regn. No.: IBB/IFA-002/IP-00363/ 2017-18/11061
9. Address and E-mail of the liquidator, as registered with the board	R/o: 3685/7, Narang Colony, Tri Nagar Delhi-110035, Mob No.: 7838777116, Email id: fcsmayagupta@gmail.com
10. Address and E-mail to be used for Correspondence with the liquidator	C/o: Maya Gupta & Associates 701, Vikrant Tower No.4, Rajendra Place New Delhi-110005, Mob: 7838777116, Email id: liq.rainapl@gmail.com
11. Last Date For Submission of Claims	26/02/2020


Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench, has ordered the commencement of Liquidation of M/s RAIN AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED on 15/01/2020 (Copy of the order received on 27/01/2020). The stakeholders of M/s RAIN AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 26/02/2020, to the liquidator at the address mentioned against item No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 29.01.2020
Place: Delhi

Maya Gupta,
Liquidator in the matter of
M/s Rain Automotive India Private Limited



PARAG MILK FOODS LIMITED

CIN:L15204PN1992PLC070209

Registered Office: Flat No 1, Plot No 19, Nav Rajasthan Housing Society, Behind Ratna Memorial Hospital, Pune, Pin- 410503, Maharashtra, India. Tel.No.: 022-43005555
Website: www.paragmilkfoods.com | Email id : investors@paragmilkfoods.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2019 (₹ in Million)

Particulars	Standalone		Consolidated			
	Quarter ended Dec 31, 2019 (Unaudited)	Nine months ended Dec 31, 2019 (Unaudited)	Quarter ended Dec 31, 2018 (Unaudited)	Quarter ended Dec 31, 2019 (Unaudited)	Nine months ended Dec 31, 2019 (Unaudited)	Quarter ended Dec 31, 2018 (Unaudited)
Total income from operations (net)	6,238.55	18,701.29	5,880.20	6,336.95	19,093.52	6,012.89
Net Profit from ordinary activities after tax	268.63	821.06	305.79	275.80	835.82	307.36
Net Profit for the period after tax (after Extraordinary items)	268.63	821.06	305.79	275.80	835.82	307.36
Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs 10/- per share)	839.39	839.39	839.39	839.39	839.39	839.39
Earnings Per Share (not annualised)						
Basic (in Rs.)	3.20	9.78	3.65	3.29	9.96	3.66
Diluted (in Rs.)	3.19	9.76	3.64	3.28	9.94	3.66


Notes :

- The above Standalone and Consolidated results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on January 30, 2020.
- The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and nine months ended are available on the Stock Exchanges website of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and Company's website at www.paragmilkfoods.com.

Place: Mumbai
Date: January 30, 2020

By order of the Board of Directors
For Parag Milk Foods Limited

Sd/-
Pritam Shah
Managing Director
DIN No. 01127247



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Recovery Cluster Meerut

[See proviso to rule 8 (6)]
Sale notice for sale of Immovable properties

E AUCTION sale notice for Sale of immovable ASSETS under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 read with proviso to rule 8(6) of SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described mortgaged/ charged to the secured creditor, the symbolic / physical (details mentioned as below) possession of which has been taken by the authorized officer of oriental bank of commerce secured creditor, will be sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" on 07.03.2020 (Asset wise date and time mentioned below. for recovery of amount, as mentioned below due to the oriental bank of commerce.

S. No.	Name of Account/Borrower/Guarantor	Outstanding Amount	Description of property/ies along with name of mortgagor (owner of property)	Status of possession (Physical / Symbolic)	Reserve Price	Earnest money deposit (EMD) amount	Last date of deposit (EMD Amount)	Details of account in which EMD is to be deposited through RTGS/ NEFT & IFSC code	Date and time of inspection of Property	Date and time of auction	Incremental bid amount (Rs)	Name & contact of Branch Manager/ Authorized officer	Encumbrances known to the Secured Creditor
1.	M/s Yaman Tanners (Represented by Prop- Mr. Gauhar s/o Mr. Gaysuddin) (Borrower) Add 1: H.No -61, Ismail Nagar, Gudri Bazaar, Meerut (UP) Add 2: Vill: Badruddin Nanu, Sardhana Road, Meerut (UP), Sh Gauhar s/o Mr. Gaysuddin (Borrower & Mortgagor) Add: H. No-61, Ismail Nagar, Gudri Bazaar, Meerut (UP), Sh. Mohammed Adil s/o Mr. Gaysuddin (Mortgagor & Guarantor) Add: H. No-61 Ismail Nagar, Gudri Bazaar, Meerut (UP), Sh. Mohd amshed s/o Mohd Sadiq (Mortgagor + Guarantor) Add: H.No- 65/34, Azad Road, Meerut (UP)	Rs. 17844076.18/- and interest thereon from 01.09.2018 and with costs and charges	Property No. 1. Mortgage created by Addressee-2 & 3 : Equitable Mortgage of A commercial land admeasuring 0.2393 hectare at Khasra No 1745, 1746/ 1747/1, 1742/2 & 1748 new khasra no 1128 mauja Badruddin nagar Nanu, Tehsil Sardhana Distt Meerut standing in the name of gohar Moynuddin & Mohd Adil both s/o late Sh Gyasuddin resident of 22, ismail nagar meerut. Property No. 2. Mortgage created by Addressee 2 & 3 -: Equitable Mortgage of piece of parcel of land measuring 1735 Sq mtrs bearing khasra No 1745 situated in village Badruddin Nagar Nanu tehsil sardhana distt meerut and bounded as on the east by: part land of khasra no. 1745 of Smt Rekha Sharma, on the west by: Nala, on the north by: Land of gram shabha, on the south by: Part land of khasra no. 1746, 1748, 1747/1 and 1747/2 total covered area of the said part is 321.70 sq mtrs. Standing in the name of Gohar Moynuddin & Mohd Adil both S/o Late Sh Gyasuddin resident of 22, Ismail Nagar Meerut.	Physical	Rs 10700000/-	Rs 10700000/-	04.03.2020 UPTO 5:00 PM	52271181000018 E Auction Deposit Account IFSC: ORBC0105227	04.03.2020 11:00 HRS TO 16:00 HRS	07.03.2020 11:00 Hrs To 12:00 Hrs	Rs 30,000/-	Sh. Manik Banerjee 0121 -4011929 mobile no: 9412704411	Not known
2.	M/S Heena Safe Industries (Borrower) Add: 397, Arjun Market, Hapur road, Meerut City (U.P.) Sh. Salamuddin S/O Mohd Jaan (Proprietor & Mortgagor) Add: 109 peepi khara, Hapur road, Meerut City (U.P.) Sh. Salamuddin S/O Mohd Jaan (Proprietor & Mortgagor) Add: 397, Jamna nagar, Hapur road, Meerut City (U.P.)	Rs.44,71,625/- and interest thereon from 01.10.2013 (date) and with costs and charges	All that part and parcel of land and building situated at part of khasra no 397a & 397b, jamna nagar hapur road meerut city admeasuring 169 Sq Mtr i.e. 202 Sq Yards, standing in the name of Sh Salam-uddin s/o Mohd jaan bounded as under :East :14' thereafter Rastaa 14' wide, West:46'4" thereafter Plot of vidya ram,North:60'], Thereafter Plot of sittoo, South:60'7" thereafter Plot of satendra rana	Symbolic	Rs 23,40,000/-	Rs 2,34,000/-	04.03.2020 UPTO 5:00 PM	52271181000018 E Auction Deposit Account IFSC: ORBC0105227	04.03.2020 11:00 HRS TO 16:00 HRS	07.03.2020 11:00 Hrs To 12:00 Hrs	Rs 30,000/-	Sh. Manik Banerjee 0121 -4011929 mobile no: 9412704411	Not known
3.	M/S Sudha Industries (Borrower) Add: B-308, Major Dhyani Chand Nagar, Delhi road, Meerut City (U.P.) Smt Sudha Devi Wo Jagdish Chand Mathur (Proprietor & Mortgagor) Add: B-308, Major Dhyani Chand Nagar, Delhi road, Meerut City (U.P.)	Rs.26,82,721/- and interest thereon from 01.08.2013 (date) and with costs and charges	A factory land and building situated at B-308 major dhyani chand nagar,delhi road, meerut city admeasuring 50 Sq Mtr standing in the name of Smt sudha devi. Bounded as under :East :10 mtr] thereafter Plot no B-307, West:10 mtr] thereafter Plot no B-309, North:5 mtr] thereafter rastaa 6 mtr wide, South:5 mtr] thereafter Plot no B-315	Physical	Rs 14,63,000/-	Rs 1,46,300/-	04.03.2020 UPTO 5:00 PM	52271181000018 E Auction Deposit Account IFSC: ORBC0105227	04.03.2020 11:00 HRS TO 16:00 HRS	07.03.2020 11:00 Hrs To 12:00 Hrs	Rs 30,000/-	Sh. Manik Banerjee 0121 -4011929 mobile no: 9412704411	Not known
4.	M/S S.J.M. Plastics (Borrower) Add: B-309, Major Dhyani Chand Nagar, Delhi road, Meerut City (U.P.) Sh. Sanjay Kumar S/O Jagdish Chand Mathur (Proprietor & Mortgagor) Add:1: B-309, Major Dhyani Chand Nagar, Delhi road, Meerut City (U.P.) Add:2: R/O 1364/2 Sector-1, Madhav Puram, Delhi road, Meerut City (U.P.)	Rs.16,53,178/- and interest thereon from 01.06.2013 (date) and with costs and charges	All that part and parcel of property bearing plot no B-309, SG-1 (commercial situated at major dhyani chand nagar sports goods complex scheme), Meerut measuring 50 sq mtrs standing in the name of Sh. Sanjay Kumar S/O Jagdish Chand Mathur. Bounded as under : East : Plot no B-308, West: Plot no B-310, North:6 mtr wide road, South: Plot no B-314	Physical	Rs 14,63,000/-	Rs 1,46,300/-	04.03.2020 UPTO 5:00 PM	52271181000018 E Auction Deposit Account IFSC: ORBC0105227	04.03.2020 11:00 HRS TO 16:00 HRS	07.03.2020 11:00 Hrs To 12:00 Hrs	Rs 30,000/-	Sh. Manik Banerjee 0121 -4011929 mobile no: 9412704411	Not known
5.	Sh. Mohd Shahid s/o Mahmood khan (Borrower & mortgagor) Add 1: H. No. 197-C Ghanthey wali gali, Firoz Nagar, Meerut 250002, Sh. Salauddin S/o saiduddin (Guarantor) Add 1: H.No. 126 Firoz nagar, Lisari road, Meerut, Sh. shahid S/o Aaz Mohammad (Guarantor) Add 1: H. No. 817 Chungi wali gali, Rashid nagar, Lisari road, Meerut	Rs. 1153301/- and interest thereon from 01.06.2018 (date) and with costs and charges	Equitable mortgage of residential house property bearing municipal no 25 admeasuring 70 sq yards i.e. 58.52 khasra no 2159 situated at friends colony meeruty city 250002 in the name of sh mohd shahid S/o Mahmood resident of 197-C Ghanthey wali gali, firoz nagar, meerut. Bounded as under: East: 21 feet plot of shakeel, West: 21 feet rastaa 15 feet wide, North:30 feet plot of others, South:30 feet plot of other person	Physical	Rs 1220000/-	Rs 122000/-	04.03.2020 UPTO 5:00 PM	52271181000018 E Auction Deposit Account IFSC: ORBC0105227	04.03.2020 11:00 HRS TO 16:00 HRS	07.03.2020 11:00 Hrs To 12:00 Hrs	Rs 30,000/-	Sh. Manik Banerjee 0121 -4011929 mobile no: 9412704411	Not known

Terms & conditions of on line e auction sale: -1. The property is being sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" and "WITHOUT RECOURSE BASIS". As such sale is without any kind of warranties & indemnities. 2. Particulars of the property / assets (viz. extent & measurements specified in the e auction sale notice have been stated to the best of information of the authorized officer and authorized officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission. Actual extent & dimension may differ. 3. E auction sale notice issued by the bank is an invitation to the general public to submit their bids and the same does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation on the part of the bank. Interested bidders are advised to peruse the copies of title deeds with the bank and to conduct on independent enquiries/ due diligence about the title and present condition of the property/ assets and claims/ dues affecting the property before submission of bids/ 4. Auction / bidding shall only be through" on line electronic, mode through the website <https://auctions.magicbricks.com> by the service provider M/S Magic Bricks Realty Services Ltd. who shall arrange and co ordinate the entire process of auction through the e auction platform. 5. The bidders may participate in a e auction for bidding from their place of choice. Internet connectivity shall have to be ensured by bidders himself. Bank / service provider shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, system crash, power failure etc. 6. For details, help, procedure and online bidding on e auction prospective bidders may contact the service provider M/S Magicbrick.com helpline no. 9212346000, phone no 9837778407 Mr. Mohit Sharma, Helpline e mail id: auction@gmagicbricks.com, mohit.sharma5@gmagicbricks.com. 7. For participating in the e auction sale, the intending bidders should register their details with the service provider M/S Magicbrick.com well in advance and shall get the user id and password both intending bidders shall advise to change only the password immediately upon receiving it from the service provider. 8. For participating in the e auction, intending bidders have to deposit a refundable EMD of 10 % of reserve price by way of RTGS/NEFT/fund transfer to the credit of account number 52271181000018, e auction deposit account, Oriental bank of commerce B/o Lokpriya Samrat Palace through the IFSC code: ORBC0105227 or by DD/ Pay Order favoring oriental bank of commerce payable at Meerut. 9. The intending bidder should submit the duly filled in bid form (format available in the above website) along with the DD/PO for quoting the UTR no of RTGS/NEFT remittance toward EMD in a sealed cover addressed to the Authorized Officer, Oriental bank of commerce, RRL cluster, 495/1 RFG Tower, Mangal Pandey Nagar, Meerut latest by 5: 00 pm on 04.03.2020. The sealed cover should be super scribed with "bid for participating in e auction sale - in the account of (as the case may be from above mentioned accounts. 10. After expiry of the last date of submission of bid with EMD, authorized officer shall examine the bids received by him and confirm the details of the qualified bidders (who have quoted their bids over and above reserve price and paid the specified EMD with the bank) to the service provider M/s magic bricks to enable them to allow only those bidders to participate in the online inter se bidding/ auction proceeding on the date and time mentioned in a e auction sale notice. 11. Interested bidding among the qualified bidders shall starts from the highest bid quoted by the qualified bidders. During the process of the interested bidding, there will be unlimited extension of "5 minutes" each i.e. the end time of e auction shall be automatically extended by five minutes each time if bid is made within five minutes from the last extension. 12. Bids once made shall not be canceled on withdrawal. All bids made from the user id given to bidder will be deemed to have been made by him alone. 13. Immediately upon closure of e auction proceedings the highest bidder shall confirm the final amount of bid quoted by him by fax/ email both to the Authorized officer Oriental Bank of Commerce RRL cluster and to the service provider for getting declared as successful bidder in e auction sale proceedings. 14. The successful bidder shall deposit 25% of the bid amount (including EMD) latest by the next working day of the sale, being knocked down in his favor and balance 75% of bid amount within 15 days of e auction by RTGS/NEFT/fund transfer to the credit of A/C 52271181000018 E AUCTION DEPOSIT ACCOUNT, Oriental Bank of Commerce B/o Lokpriya Samrat Palace through the IFSC code ORBC0105227 or by DD/ Pay Order favoring Oriental bank of commerce payable at Meerut. 15. In case of default of payment of the above stipulated by the successful bidder/ auction purchaser within the stipulated time, the sale will be canceled and the amount already paid (including EMD) will forfeited and the property will be again put to sale. 16. At the request of the successful bidder in writing, the authorized officer in his absolute discretion may grant further time in writing for the depositing the balance of the bid amount. 17. Municipal / Panchayat taxes, society dues/ electricity dues (if any) has to be paid the successful bidder only. 18. Sale certificate will be issued by the authorized officer in favour of successful bidder only upon the deposit of the entire purchase price/ bid amount. 19. Applicable legal charges for conveyance, stamp duty, registration charges and other incidental charges shall be borne by the auction purchaser. 20. The authorized officer may postpone / cancel the e auction sale proceeding without assigning any reasons whatsoever. In case the e auction sale scheduled is postponed to a later date before 30 days before the scheduled date of sale, it will be displayed on the website of service provider. 21. The decision of the authorized officer is final, binding and unquestionable. 22. All bidders who submitted the bid shall be deemed to have read and understood the terms and condition of e auction sale and be bound by them. Special instruction/ caution: bidding in the last minutes and seconds should be avoided by the bidder in their own interest. Neither the bank/ authorized officer nor the service provider will be responsible for any lapses / failure (internet failure power failure etc.) on the part of the bidder in such cases. In order to ward of such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements/ alternative such as backup power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and able to participate in auction successfully. STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6)/ RULE 9(1) OF STATUTORY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002 This may also be treated as notice U/S 8(6) / Rule 9(1) of statutory interest (enforcement) rules 2002 to the borrower/s and the guarantor/s of the said loan about the holding of e auction sale on the above mentioned date.

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) / RULE 9(1) OF STATUTORY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002

This may also be treated as notice U/S 8(6) / Rule 9(1) of statutory interest (enforcement) rules 2002 to the borrower/s and the guarantor/s of the said loan about the holding of e auction sale on the above mentioned date.

Date: 28.01.2020
Place: Meerut
Authorized Officer: RRL Cluster, Oriental Bank of Commerce

भुलखुंधार
हार्म नंबर आईएनसी-28 के अन्तर्गत अन्तर्प्रियम धान्ना प्रा० लि० के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के सम्बन्ध में दिनांक 29.01.2020 को दैनिक समाचार पत्र जनसत्ता में प्रकाशित विज्ञापन में निदेशक का नाम भुलखुंध अर्थात् अप्रत्यक्ष प्रकाशित हो गया है यहाँ नाम अर्थात् मॉयस है। कार्यालय- प्रीमियम धान्ना प्रा० लि० निदेशक अर्थात् गोबाल(डीआईएन 00509628) पता-230ए, मेरुड नगर स्थित लाइन्, ज़ारुए 282002 यू.पी. हरियाणा

सार्वजनिक सूचना
रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज के सम्म, **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली**
सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008, नियम 17 सीमित दायित्व साझेदारी, 2009 के मामले में और
जेम्सी इंटरप्राइसिस एलएलपी
(एलएलपीआईएन-एआईए-3660)
के मामले में
जिसका पंजीकृत पता: प्लेट नं० 1235, सेक्टर-बी, पॉकेट-1, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

आवेदक
एतद्वारा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि **जेम्सी इंटरप्राइसिस एलएलपी** अपने पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में आखोती, दिल्ली एड्ड हरियाणा के न्यायधिकरण के आशेष स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करते हैं। वह कोई भी व्यक्ति जो एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रशासित परिवर्तन से प्रभावित होने वाला हो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर अपने हित एवं अधिकारों का कारण बताते हुए एक शपथपत्र द्वारा अथवा एलसीए-21 फॉर्म (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर पंजीकृत डाक द्वारा अपनी आपत्तियों की एक प्रति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के निम्नांकित पते पर और एक प्रति रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज, रा.क्षेत्र दिल्ली, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, मेरुड रोड, नई दिल्ली-110019 के पास भेज सकते हैं।

पंजीकृत कार्यालय: प्लेट नं० 1235, सेक्टर-बी, पॉकेट-1, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
आवेदक के लिए और उसकी ओर से **जेम्सी इंटरप्राइसिस एलएलपी**
दिनांक: 31 जनवरी 2020 राक्षस पूर
स्थान: नई दिल्ली अधिष्ठित साझेदार

GOBIND SUGAR MILLS LIMITED
CIN : L15421DL1952PLC354222
Regd. Office : Birla Mills Complex,
P. O. Birla Lines, G T Road,
Near Colgate Tower, Kamla Nagar,
North Delhi – 110007
Email : lg.gsmil@adventz.com
Web : www.gobindsugar.com

Pursuant to Regulation 47 read with Regulations 29 & 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, February 03, 2020, inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December 2019.

As required in terms of Reg. 46 of Listing Regulations, this notice is also available on website of the company www.gobindsugar.com and website of Stock Exchange at www.mseil.in
For Gobind Sugar Mills Limited
Sd/-
Laxman Aggarwal
Company Secretary
Place : Gurugram
Date : 27.01.2020

अनुसूची- II
प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
(भारत का दिवाला और ऋण शांति अक्षेताई बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया))
नियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन,
मैसर्स रेन ऑटोमोटिव इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

संबंधित विवरण	
1. कापोरेट देनदार का नाम	रेन ऑटोमोटिव इंडिया प्रा. लि.
2. कापोरेट देनदार के निगमन की तिथि	09.02.2011
3. यह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कापोरेट ऋणधारक निर्गमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज दिल्ली
4. कापोरेट देनदार की कापोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U50200DL2011PTC213635
5. कापोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रमाण कार्यालय (यदि कोई) का पता	1187/7, नई वल्ला, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
6. कापोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरम्भ होने की तिथि	11.12.2019
7. दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन के अनुमानित तिथि	15.01.2020 (27.01.2020 आदेश प्राप्त हुआ)
8. अंतिम समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	माया गुप्ता रजि. नं. IBBI/PA-002/IP-00363/ 2017-18/11061
9. अंतिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल पता	निवास : 3685/7, नारंग कॉलोनी, औ नगर, दिल्ली-110035 फोन: 783877116 ई-मेल आईडी: fcsmayagupta@gmail.com
10.अंतिम पत्राचार का पता और ई-मेल पता	सी/ओ : माया गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स 701, विकास टावर नं० 4, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110005, फोन: 783877116 ई-मेल आईडी : liq.rainapl@gmail.com
11. दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	26.02.2020

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बैठ ने 15.01.2020 को **मैसर्स रेन ऑटोमोटिव इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (27.01.2020 को आदेश प्राप्त)** का परिसमापन आरंभ करने का आदेश दिया है।
मैसर्स रेन ऑटोमोटिव इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के हितधारकों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण **26.02.2020** को अथवा पूर्व परिसमापक के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।
निम्नलिखित लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

माया गुप्ता
तिथि : 29.01.2020
स्थान : दिल्ली
मैसर्स रेन ऑटोमोटिव इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
के मामले में परिसमापक

File No. AR-24012/1/2020-SECT-1-AR
GOVERNMENT OF ARUNACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS
CIVIL SECRETARIAT :: BLOCK NO. 4 :: 4TH
FLOOR, ITANAGAR - 791111
ADDENDUM
Dated Itanagar, the 27th January, 2020
The undersigned is directed to refer to the advertisement of Department of Administrative Reforms, Government of Arunachal Pradesh vide even number dated 02.01.2020 wherein vacancy position of the Information Commissioner, Arunachal Pradesh Information Commission was shown as 2 (two) posts but one more post is anticipated to become vacant due to demitting of office by one of the Information Commissioner, Arunachal Pradesh Information Commission. Therefore, the 3 (three) vacancies will be filled up together.
The detailed information in this regard, terms of appointment and format for application etc. are available on the departmental website (www.arungovard.nic.in).
The desiring candidates are advised to check the above website and submit their application along with all its enclosures in electronic format only at e-mail address secy-part-arn@nic.in only on or before 14th February, 2020 (AN).
(By order and in the name of Governor of Arunachal Pradesh)

सिंडिकेट बैंक
Syndicate Bank
सिंडिकेट बैंक लिमिटेड
इ-मेल : no.2.dilip@syndicatebank.co.in
सर्वजनिक नीलामी द्वारा घरेलू मंदों की बिक्री
हम अपनी हैदरपुर शाखा नई दिल्ली के मैसर्स केएनसी केटरर्स (कर्मदार नन्दबिहारी सिन्हा) के खाते के परिवेष्ट में श्रीमती उषा सिन्हा पत्नी श्री शिव शंकर सिन्हा के च्यात्विल में मकान नं. 59, ग्राम साहिन नगर, मोहल्ला सरस्वती विहार-I, गाजियाबाद, परगना लोनी, तारीख एवं बिला गाजियाबाद पर पड़ी रु. 50,000/- मूल्य की घरेलू मंदों/वस्तुओं को 10.02.2020 को नीलामी संचालित करने का प्रस्ताव करते हैं। नीलामी हमारी हैदरपुर शाखा, नई दिल्ली पर 10.02.2020 को 11:30 बजे प्रातः संचालित की जायेगी।
"सफल सविदाकार को नीलामी की तिथि पर ही पूरा एवं अंतिम भुगतान करना होगा।"
कथित घरेलू मंदों/वस्तुओं के अधिक विवरण/निरीक्षण हेतु कृपया शाखा प्रबन्धक, सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर शाखा (कार्यालय नं. 011-27490670, मोबाइल नं. 9871154937) से 7.2.2020 को या इससे पूर्व कार्यालय घण्टों के दौरान सम्पर्क करें।
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30.01.2020
अधिकृत प्राधिकारी

UNIVERSAL OFFICE AUTOMATION LIMITED
Regd. Office : 806, Siddharthi, 96, Nehru Place, New Delhi – 110019
CIN: L34300DL1991PLC044365, Website: www.uniofficeautomation.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the exchange is hereby informed that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 10th February, 2020 at 3.30 p.m. to consider the un-audited results of the Company for the quarter ended on December 31, 2019.
Further in terms of 'Minimum Standards for Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading' for dealing in securities of the company, the Company has decided that the trade close period (i.e. closure of trading window) would commence from 6.00 p.m. on 07-02-2020 and end 48 hours after the results are made public on 10-02-2020.
For Universal Office Automation Ltd.
Sd/-
Naina Luthra
Company Secretary
Date: January 27, 2020
Place: Noida

पंजाब नैशनाल बैंक
पंजाब नैशनाल बैंक लिमिटेड
आवेदक वस्तुओं प्रबन्धन शाखा
प्रथम तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्रा पब्लि, नई दिल्ली-110125
ई-मेल : b04168@pnbs.co.in
1. मैसर्स दुआ मेकेनिकल वर्क्स, 416, चौथी मंजिल, अम्बा टावर, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
2. श्री राजेश दुआ (प्रोपराइटर) पुत्र श्री यश पाल दुआ, निवासी सी-7, साई अपार्टमेंट, सेक्टर-13, रोहिणी, नई दिल्ली-110085

प्रिय श्रीमान,
विषय : बैंक के साथ मैसर्स दुआ मेकेनिकल वर्क्स के ऋण खाते में "इरादतन" चूक की पहचान-परिणाम: आपके नाम/नामों को "इरादतन चूककर्ताओं" के रूप में प्रकटित तथा प्रकाशित करना।
कृपया हमारी सूचना दिनांक 24.07.2019 का सन्दर्भ नें जिसमें हमने ऋण खाते में जानबूझकर चूक की घटना(ए) के सुधार हेतु 10 दिन का समय दिया। किन्तु सूचना के बाद भी आपने जानबूझकर चूक का सुधार नहीं किया। कृपया सूचित हो कि आरवीआई के दिशा-निर्देशों तथा ऋण अनुबंधों के नियम पत्र के अनुसार बैंक द्वारा स्थापित "जानबूझकर चूककर्ताओं को समिति" ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से शोषांकित वरीअंत खात में आप (कर्मदार) तथा निदेशकों/साझेदारों आदि को इरादतन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए चूक की पहचान की है :
1. कर्मदार/जमानती ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है और उन विशिष्ट उद्देश्यों हेतु ऋणदाता से वित्त का उपयोग नहीं किया है जिसके लिए कर्न लिया गया था बल्कि इस धन को अन्य उद्देश्यों के लिए मारगैजिन किया। यदि आप "जानबूझकर चूककर्ताओं को समिति" के निर्णय से असहमत हैं तो आप यदि आप चाहते हैं तो एक प्रतिनिधता शिकायत निवारता समिति (बैंक के चेयरमैन तथा प्रबन्धक निदेशक के नेतृत्व में) के पास कर सकते हैं और कारण बताइये कि आपको "जानबूझकर चूककर्ता" के रूप में क्यों न वर्गीकृत किया जाये। आपका प्रतिनिधता इनकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर हमारे पास पहुँच जाना चाहिए। यदि हमें आपकी कोई प्रत्युति/प्रतिनिधता नहीं प्राप्त होता है तो यह माना जायेगा कि आपको अपने बचाम में ("इरादतन चूककर्ताओं को समिति" के निर्णय के विरुद्ध) कुछ कहने के लिए नहीं है और बैंक आपके नाम अथवा आपकी कम्पनी/फर्म/इकाई तथा आपके निदेशक/को/साझेदार/गैर/प्रोपराइटर के नाम(यों) को आरवीआई/मिक्लि/अन्य साक्ष सूचना कम्पनियों को ऐसे माध्यम से जेरा बैंक अपने निरपेक्ष विशेषाधिकार से उचित समझे, "इरादतन चूककर्ता" के रूप में प्रकाशित करेगा। पुनः अपने बातों के साथ-साथ इसका परिणाम निम्नलिखित भी होगा :
● किसी बैंक/एफआई द्वारा अतिरिक्त सुविधा प्राप्त न होना।
● आरवीआई द्वारा जानबूझकर चूककर्ताओं की सूची में आपके नाम के प्रकाशन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए नये उत्क्रम संचालित करने के लिए एमसीबी, डीएफआई, सरकारी च्यात्विल के एमबीएफसी, निवेश संस्थानों आदि से आपको/उद्यमियों को/प्रमोटरों को वंचित करना। इसके अतिरिक्त, उर्ध्वपुत्र के प्रचुराह से रहित, विधिक प्रक्रिया जैसे कि बकायों की सुल्ली के फोरक्लोजर, सरफाएशी कार्यवाही तथा आपाधिक कार्यवाहियाँ, यदि सूचित हैं, भी आपको विवेक की जायेगी।
आपका दिव्यानामपत्र
कृते पंजाब नैशनल बैंक, शाखा प्रबन्धक

विशेष सं०	सर्टिफिकेट नं०	शेयर सं०
3008871-3008970	30096	100
3566371-3566470	35671	100
5028571-5028670	50293	100
5230071-5230170	52308	100
6940771-6940870	69415	100
8907571-8907670	89083	100
9636371-9636370	96644	100
11667971-11668070	116687	100
11812471-11812570	118132	100
12459571-12459670	124603	100
12536171-12536270	125369	100
12585871-12585970	125866	100
12816971-12817070	128177	100
कुल		1300

जिस किसी को भी यह मिलता है, उनसे निवेदन है कि इस विज्ञापन के 10 दिन के अन्दर मुझे मोबाइल नं० 9650336422 पर संपर्क करें।

CAREER POINT LIMITED
Registered Office: CP Tower 1, Road No. 1, IPIA, Kota, Rajasthan 324005
CIN: L72200RJ2000PLC016272, Phone: 0744-3040000, Fax: 0744-3040050
Website: www.cpil.in, E-mail: investors@cpil.in
NOTICE
Notice is hereby given in pursuance to Regulation 29 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 12 February, 2020 to consider various items inter alia the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the Quarter ended December 31, 2019 and to consider declaration of 3rd Interim Dividend, if any. Pursuant to this, trading window is closed from January 01, 2020 to February 14, 2020 (both days inclusive).
The said information is also available on the Company's website at www.cpil.in and on the Stock Exchange website at <http://www.bseindia.com> and <http://www.nseindia.com>.
For Career Point Limited
Tarun Kumar Jain
Place : Kota (Rajasthan)
Date : 30 January, 2020
GM (Corporate & Legal Affairs) & Company Secretary

J&K Bank
Serving To Empower
कर्मों सुचना (अवल सम्पत्ति के लिये) [देश निषम 8 (1)]
बांशित परिसंपत्ति पोर्टफोलियो प्रथम विभाग, अवल कार्यालय उत्तर (दिल्ली), जे एड के लिफिंग, प्लॉट नं० 132-134, सेक्टर- 44, मुगुर्ग, हरियाणा, टेली: 0124-4715800, ई-मेल: ipanddl@jkbmail.in

जैसा कि, वितीय परिसम्पत्तियों के प्रातुर्भूतिकरण एवं पुनर्नामिका तथा प्रातुर्भूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत द जम्पु एंड कर्मर बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रातुर्भूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 7.9.2018 जारी कर ऋणधारक कम्पनी 1 मै. ए.एस्. एलएलपीआईन, कार्यालय पता: न्यू. नं०. 203, सेक्टर-3, डीएसआई डीसी, बनाना इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली- 110085, 2. श्री भूपिन्दर शोकीन, पुत्र सखीर सिंह, निवासी: 105, मंगोलपुरी कलान, दिल्ली- 110085 (ऋणधारक), 3. श्रीमती मनीषा, पत्नी भूपिन्दर शोकीन, निवासी: 105, मंगोलपुरी कलान, दिल्ली- 110085 (ऋणधारक), 4. श्री अजित लुगी, पुत्र एम.के. चुगली, निवासी: 1630, जे. जैन नगर, कश्मीर कोलीनी, कलाला, दिल्ली (ऋणधारक), तथा 5. श्री अमन शोकीन, पुत्र रव. नरसी सिंह, निवासी: 106, मंगोलपुर, कलान, दिल्ली (गारन्टर) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि कैश क्रेडिट रू. 83153331.37 (रुपये तिराने लाख चौदह हजार तीन सौ इकतीस एवं पैसे सैंतीस मात्र) एवं सम्पत्ति के लिये ऋण सुविधा रु. 1681926.80 (रुपये सोलह लाख इक्कासी हजार नौ सौ छब्बिस एवं पैसे अरसी मात्र) दोनों खाता में कुल बचत रु. 9997258.17 (निन्यायेन लाख सत्तानवे हजार दो सौ अठानवन, पैसे सत्तर मात्र) वापस लौटाने का निदेश दिया था। इस सूचना राशि में आपने केवल एलएपी (सम्पत्ति के लिये ऋण) खाता को समायोजित किया है तथा 01.01.2020 से ख्याल एवं कर्मातों (वहन की गई) को जाने वाली) के साथ कैश क्रेडिट खाता में 31.12.2019 को रु. 9364355.17 (रुपये तिरानवे लाख चौसठ हजार तीन सौ पचपन एवं पैसे सत्तर मात्र) की राशि बचत है।
ऋणधारक गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक, गारन्टर/माटैगैर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 28 जनवरी, 2020 को 1.00 अप. में अयोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रातिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 तथा 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उर्न प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 1.1.2020 से उरर पर आने के ख्याल, लागत आदि के साथ 31.12.2019 को रु. 9364355.17 (रुपये तिरानवे लाख चौसठ हजार तीन सौ पचपन एवं पैसे सत्तर मात्र) की राशि बचता है। के लिये जम्पु एंड कर्मर बैंक लि. (सी.यू. बी.एन. प्लाज, ए-2, पॉकेट 2, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली शाखा) के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रातिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति अकृष्ट की जाती है।
अवल सम्पत्ति का विवरण
मंगोलपुरी कलान, दिल्ली में दिश भूमि भाग 350 वर्ग यार्ड्स, खसर नं. 29/5 के प्लॉट पर निर्मित सम्पत्ति में शामिल गिरवी रखी गई अवल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
तिथि: 28.01.2020
स्थान: दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
द जम्पु एंड कर्मर बैंक लि.

Selan Exploration Technology Limited
Regd. Office: J-47 / 1, Shyam Vihar,
Dindapur, Najalgar, New Delhi- 110 043
CIN: L74899DL1985PLC021445
Website: www.selanoil.com
E-mail: investors@selanoil.com
Tele Fax No.: 0124-4200326

NOTICE
Notice (pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015) is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 08 February 2020 to consider and take on record, *inter-alia*, the Unaudited Financial Results for the quarter ended 31 December 2019 and Interim Dividend for the financial year 2019-20 on Equity Shares of the Company.
The Record Date for the purpose of Interim Dividend, if declared will be Saturday, 15 February 2020.

For Selan Exploration Technology Ltd.
Sd/-
Gurjan Gupta
Asst. Company Secretary & Place: Gurgaon Compliance Officer

(फार्म नं० INC 26)
एतद्वारा सूचना दी जायति विमिटेड
CIN : U70102DL2012PTC244612
पंजीकृत कार्यालय : ए-47, लोवर शाउंड प्लोर, होज खार, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली- 110 016
केन्द्रीय सरकार के समक्ष (खोखी निदेशक उत्तरी क्षेत्र)
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) की उप-धारा (4) तथा नियम 30(5) (ग) कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के मामले में।
तथा
माामले में एएसएसआर टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत ए-47 लोवर शाउंड प्लोर, होज खार, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली- 110 016 में स्थित है।
... आवेदक कम्पनी एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु मुद्रिकरण के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव असाधारण आम सभा में कम्पनी को रखाम करने हेतु 13.15.2020 को आयोजित बैठक में पंजीकृत व्यवसायों के "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने हेतु सार्वजनिक गया है।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होता हो, तो ये इसका कारण देते हुए आपसि शपथपत्र में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/आपसि के आधार हो, एमसीए, 21 पॉइल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दूज करे या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ को भेज सकते हैं, नई दिल्ली- 110 003 को रजिस्टर्ड पॉइल द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशित होने के चौदह दिनों के भीतर निम्न पते पर भेज दें।
ए-47, लोवर शाउंड प्लोर, होज खार, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली-110 016
कृते एएसएसआर टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (हरता,/-) सजीव मिलता
स्थान : नई दिल्ली 01762क
दिनांक : 30.01.2020 DIN : 31222331
पता : Y-59 होज खार, साउथ डेट दिल्ली, नई दिल्ली- 110 016

जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड
(CIN: L31102DL1957PLC193993)
पंजीकृत कार्यालय: ए-18, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020, फोन नं: 91-11-4161 0660 वेबसाइट: <http://www.ge.com/in/ge-td-india-limited>
सूचना
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षा) नियमावली, 2015 के विनियम 47 के अनुसार हमें यह सूचित किया जाता है कि अन्य मूर्दों के साथ ही साथ लेखापरीक्षकों के समिति समीक्षा के अधीन 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही एवं नौ महीनों के अवस्थापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने व अनुमोदित करने हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन बीवार, दिनांक 6 फरवरी, 2020 को किया जाएगा। इसकी सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात <http://www.ge.com/in/ge-td-india-limited> एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यथा www.nseindia.com तथा www.bseindia.com में उपलब्ध है।
जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड के लिए
जनवरी 30, 2020
नोट्स
मनोज प्रसाद सिंह
कंपनी सचिव

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)			
For the Attention of the Creditors of M/s. KPG International Private Limited			
RELEVANT PARTICULARS			
1. Name of corporate debtor	M/s. KPG International Private Limited		
2. Date of incorporation of corporate debtor	31.10.2016		
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana under Companies Act, 2013		
4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U17299DL2016PTC307725		
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	B-354, Block-B, Mangol Puri Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110083		
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	29.01.2020 Vide NCLT Order No.- IB-2083(ND)/2019 dated 27/01/2020, certified copy received on 29/01/2020		
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	27.07.2020 (180 Days from the date of commencement of CIRP)		
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Sunil Kumar Agrawal Regn. No.: IBBI/PA-002/IP-N00081/2017-18/10222		
9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: E-29, South Extension-II, New Delhi- 110049 Email: aggarwalsk21@yahoo.com		
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: 904, GF, Sector-7C, Faridabad-121006 Email: iprkpg2020@gmail.com aggarwalsk21@yahoo.com		
11. Last date for submission of claims	12.02.2020		
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable		
13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable		
14. (a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	1. Web link: https://ibbi.gov.in/downloadsform.html 2. Physical Address : Not Applicable		

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi, Bench-V has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the M/s. KPG International Private Limited vide order IB-2083(ND)/2019 dated 27/01/2020, certified copy received on 29/01/2020.
1. The creditors of M/s. KPG International Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 12.02.2020 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
2. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in paper, by post or by electronic means.
3. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12 (NA), shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorized representative of the class in Form CA (NA).
4. The submission of claims is to be made in accordance with Chapter IV of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. The claim with proof is to be submitted in following specified forms along with documentary proof in support of claim:
Form B: Claim by Operational Creditors except workmen & employees.
Form C: Claim by Financial Creditors.
Form CA: Claim by Financial Creditors in a class.
Form D: Claim by workmen or an employee.
Form E: Claim submitted by an authorized representative of workmen or an employee.
Form F: Claim by Creditors (other than Financial Creditors and Operational Creditors).
5. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

लॉट	परिसम्पत्तियों का विवरण	आंशिक मूल्य	ईएमडी राशि 10%	वृद्धि मूल्य
लॉट-1	1. BMW X5 XDRIVE 30D(TUD)* Pure Experience, BLUE REGN DT: 30/05/2016	33,00,000/-	3,30,000/-	रु. 50,000/-
लॉट-2	2. MERCEDES E250CDI, OBSIDI-AN BLACK REGN DT: 09/06/2011	15,00,000/-	1,50,000/-	रु. 25,000/-
लॉट-3	3. SKODA SUPERB, MAGIC BLACK REGN DT: 05/02/2013	8,20,000/-	82,000/-	रु. 10,000